



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार

पिन कोड-249404


पत्रांक सं०-80/आई0टी0/2024-25

हरिद्वार : दिनांक : 10.01.2025

कोटेशन सूचना


आयोग कार्यालय में स्थापित 03 ऑनलाइन यू0पी0एस0 (10 के0वी0ए0 Numeric Make) की AMC की जानी है, जिस हेतु **Numeric authorised** फर्मों से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म अपनी कोटेशन दिनांक 27/01/2025 सायं 06 बजे तक आयोग कार्यालय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं जमा करा सकते हैं। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त के संबंध में किसी भी जानकारी हेतु आयोग कार्यालय के आई0टी0 अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नक: नियम व शर्तें।


(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव मा0 अध्यक्ष को मा0 अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आयोग सूचना बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. गार्ड फाईल।


(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव

General Terms and Conditions for AMC of 10 KVA
(Numeric Make)

1. **Period of Contract:** The duration of AMC will be 01 year from the date of work order.
2. **Scope of Work:** AMC will cover the followings:
 - a. Total 03 numbers of Online UPS (HP Max Numeric 10KVA) are covered under the AMC having serial number VIII8203705, VII81203706 & VII201206178
 - b. Periodic preventive maintenance will be made quarterly. During the preventive maintenance UPS checkup, cleaning of UPS and checking of general performance of the UPS will be done.
 - c. Supply and replacement of parts free of cost. Part to be replaced must be original.
3. **Payment Terms:** Payment will be made on quarterly basis (25% of order value of AMC) after completion of the said quarter subject to the satisfactory performance certified by UKPSC, Haridwar. No additional charges shall be paid by the UKPSC, Haridwar. The AMC cost includes the travelling cost for rendering services throughout the year for all online UPS.
4. **Statutory Levies:** The AMC cost includes all the statutory levies if any, charged by the State or Central Govt. for rendering such type of service.
5. **Working Hours:** The maintenance work shall normally be done during the working hours of the UKPSC i.e 9:30AM to 06:00PM. However, in case of emergency, maintenance may have to be done beyond office hours and even on holidays, prior arrangements through proper communication should be worked out in all cases by the service provider.
6. **Response Time:** Normal response time for repair is 24 hours from the actual time of reporting the problem to the services provider.
7. **Tax:** Necessary tax deductions will be made from the payment of the party as per law.

